



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

No. 156]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2018

सं. 10/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 247(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेटाफेनाइलिन डायामीन" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. 179 (अ), दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम, 1975 से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 26 फरवरी, 2018, जिसे दिनांक 26 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और इस प्रतिपाटन शुल्क को उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार इस समीक्षा के विचाराधीन रहने के कारण इसके प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. 179 (अ) दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 21 मार्च, **2019** तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो”

[फा. सं. 354/26/2013-टीआरयू (पार्ट. 1)]

रुचि बिष्ट, अवसर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014 को सा.का.नि. 179 (अ), दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2018

No. 10/ 2018-Customs (ADD)

G.S.R. 247(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 7/2/2018-DGAD, dated the 26th February 2018, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 26th February 2018, has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), hereinafter referred to as the said Act, and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on ‘Metaphenylene Diamine’, originating in, or exported, from China PR, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2014-Customs (ADD), dated the 11th March 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.179 (E), dated the 11th March 2014, and has requested for extension of anti-dumping duty for a period of one year from the date of initiation of said review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Act, pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2014-Customs (ADD), dated the 11th March 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 179(E), dated the 11th March 2014, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2 this notification shall remain in force upto and inclusive of the 21st March, 2019 unless revoked earlier.”

[F. No. 354/26/2013-TRU (Pt-I)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principle notification No. 11/e 11th March, 2014-Customs (ADD), dated the 11th March, 2014 was published *vide* number G.S.R. 179 (E), dated th 2014.